

प्रेस नोट

सराहनीय कार्य थाना कोतवाली पीलीभीत

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत श्री किरीट कुमार राठौड़ के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री पवित्र मोहन त्रिपाठी अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत व श्री विरेन्द्र विक्रम क्षेत्राधिकारी नगर पीलीभीत के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी ।

इसी क्रम में दिनांक 31.07.21 को थाना कोतवाली नगर जनपद पीलीभीत क्षेत्र के नेहरू ऊर्जा उद्यान के पास श्री धर्मप्रकाश पुत्र लालाराम नि० मैत्री वाग कालोनी पीलीभीत अपनी सलहज के साथ श्रीमती अंजलि कश्यप को लेकर मोटर साइकिल से शेरो वाली मठिया जा रहे थे तभी समय 09.10 वजे पीछे से आये मोटर साइकिल सवार UP 26 Q – 2398 के दो व्यक्तियों द्वारा मोटर साइकिल पर वैठी महिला श्रीमती अंजलि कश्यप के हाथ से पर्स छीनने का प्रयास किया अभि० गण द्वारा पर्स छीनने का झप्पटा मारने पर महिला की चीख निकली जिस पर पीछे से आ रहे कुछ जनता के लोग व पास ही कुछ दूरी पर चैकिंग कर रहे पुलिस कर्मी शोर शरावा की आवाज सुनकर घटनास्थल की तरफ दौड़े तो दोनो व्यक्ति मौके से भाग निकले इस सूचना पर तत्काल पहुंचे श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री किरीट राठौर जनपद पीलीभीत , श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० पवित्र मोहन त्रिपाठी , श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री वीरेन्द्र विक्रम एवं आवास विकास चौराहे पर चैकिंग कर रहे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अतर सिंह व अन्य पुलिस बल के पहुंचने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा इस घटना को चुनौती के रूप में लिया और मौके पर समस्त पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीम गठित कर विभिन्न स्थानो पर चैकिंग करायी गयी । और चारो तरफ झाडियो व तालाब व अन्य स्थानो पर अभियुक्तो की तलाश में विशेष तलाश अभियान व चैकिंग करायी गयी जिसके तहत वाले मियां की मजार पर चैकिंग कर रहे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री अतर सिंह की टीम द्वारा संदेह के आधार पर चैकिंग की गयी चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. फैजुर्हमान उर्फ फैज पुत्र हबीबुर्हमान शम्शी निवासी मोहल्ला पकड़िया थाना कोतवाली पीलीभीत उम्र 21 वर्ष 2. जहागीर उर्फ अमान पुत्र बदरुद्दीन निवासी मोहल्ला पकड़िया थाना कोतवाली पीलीभीत उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सवार UP 26 Q – 2398 के तथा दि०-23.07.2021 को PWD गैस्ट हाउस के पास एक महिला के गले से झप्पटा मारकर चैन तोडी गयी उक्त तोडी गयी चैन को बिक्री के 4000 रु० ही वरामद हुये अभि० द्वारा उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया है । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर पूर्व से ही मु०अ०सं० 182/21 धारा 392 भा०द०वि० पंजीकृत है व 188/21 धारा 393 भा०द०वि० से सम्बन्धित माल की बरामदगी की गयी । इस सम्बन्ध में अभियुक्त गण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी। इस प्रकार पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत एवं अन्य पुलिस अधिकारियो द्वारा उठाये गये अपराधियो की धर पकड को चलाये गये इस विशेष चैकिंग अभियान की आम जनता में विशेष सराहना की जा रही है ।

आपराधिक प्रकरण –

- 1.मु0अ0सं0 182/21 धारा 392 भा0द0वि0
- 2.मु0अ0सं0 188/21 धारा 393 भा0द0वि0
- 3.मु0अ0सं0 337/20 धारा 308/323/504/506/342 भादवि

माल बरामदगी-

- 1.लूट की घटना में प्रयुक्त – 02 मोटर साइकिल
2. 4000 रुपये नकद बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. फैजुर्रहमान उर्फ फैज पुत्र हबीबुर्रहमान शमशी निवासी मोहल्ला पकड़िया थाना कोतवाली पीलीभीत उम्र 21 वर्ष
2. जहागीर उर्फ अमान पुत्र बदरुद्दीन निवासी मोहल्ला पकड़िया थाना कोतवाली पीलीभीत उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तारी टीम-

- 1.श्री अतर सिंह – प्रभारी निरीक्षक कोतवाली
- 2.उ0नि0 श्री निर्देश चौहान – प्रभारी चौकी ठेका
- 3.का0 935 मोहित कुमार – थाना कोतवाली
- 4.का0 1621 रोहित कुमार– थाना कोतवाली
- 5.का0 1049 कुलदीप कुमार– थाना कोतवाली
- 6.का0 675 कपिल मलिक– थाना कोतवाली
- 7.म0का0 1171 आराधना वर्मा– थाना कोतवाली
- 8.चालक जयकुँवर – थाना कोतवाली
- 9.सर्विलांस/एसओजी टीम के प्रभारी श्री गौरव विश्रोई –
- 10.हे0का0 श्री हरीश शर्मा – सर्विलांस सैल/ एसओजी
- 11.का0 उदयवीर सिंह – सर्विलांस सैल / एसओजी
- 12.का0 विक्रान्त - सर्विलांस सैल / एसओजी
- 13.का0 देवेन्द्र सिंह - सर्विलांस सैल / एसओजी